



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 1981/वैशाख 21, 1903

No. 197]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 1981/VAISAKHA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 मई, 1981

का० आ० 352 (अ):—जुंकि केन्द्रीय सरकार की राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में जो मेट्रो संरक्षण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर है, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे हम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें अनुसूची में दिए गए व्यूरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस संबंध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निर्देश का अनुपालन न होने पर भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे। ऐसे मालिकों/व्यक्तियों जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनाय यह आगे और अधिसूचित किया जाता है कि भूमिगत रेल (संकर्म निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकानान मैकेजी बिल्डिंग, स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता-700001 के दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची					
कलकत्ता नगर निगम को रिकॉर्ड में यथा वर्ज इमारत परिसर संख्या	मालिकों या व्यक्तियों जिनके नियंत्रण में इमारत हो, का नाम और पता	इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन के लिए निर्देश	अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल		
			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (अनुमानित)
30. चौरंगी रोड (चौरंगी मैनशन) कलकत्ता 1।	ए० एल० हज अमीर होसेन प्रापर- टीस (प्राइवेट) लिमिटेड, 9/2, लाल बाजार स्ट्रीट (पहली मंजिल) प्रापरटी एस्टेट लिमिटेड आफिसियल ट्रास्टीस, पश्चिम बंगाल सरकार, 1, किरन शंकर राय रोड (वर्षावा मंजिल) कलकत्ता-1.	चौरंगी रोड के फुटपाथ को घेरने वाली इमारत के पोर्टिको भाग को गिराकर हटा दें। (पोर्टिको का दक्षिणी भाग)	19.80	6.87	136.03

[फाइल सं० 81/एमटीपी/सी/एलए/6]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd April, 1981

S.O. 352 (E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration of the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore in exercise of the power conferred under section 21(1)(a) it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alternations as detailed in the schedule to such building within three months from the date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, in this connection, Non-compliance to the direction as made hereunder shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

It is further notified for information of the owner/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road, Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corpora- tion Record	Name and address of owners or the persons having control over the Building	Direction for alternation to be done in the building.	Approximate dimensions & area of porticos.		
			Length. in metres.	Breadth in Metres.	Area in Sqm. (App.)
30. Chowringhee Road (Chow- ringhee Mansion), Calcutta.	A.L. Haj Amir Hossain properties (Pvt.) Ltd. 9/2 Lalbazar Street (1st floor) and Ezra property Estate Ltd., The official Trustees, Govt. of West Bengal, 1 Kiran Sankar Roy Rd. (10th floor), Calcutta-1.	Dismantle and remove portico portion of the building cover- ing foot path of Chowringhee Road, Southern part of por- tico.	19.80	6.87	136.03

[No. 81/MTP/C/LA/6]

भूमिगत रेल (संक्रमण निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत अधिसूचना

क्र० आ० 353 (अ):—चूंकि केन्द्रीय सरकार की राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे का निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरक्षण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर हैं, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिये गये ब्यौरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

*इस संबंध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निर्देश का अनुपालन न होने पर भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे। ऐसे मालिकों/व्यक्तियों जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनाार्थ यह आगे और अधिसूचित किया जाता है कि भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकमान मैकेन्जी बिल्डिंग, स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता-700001 के दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम को रिकार्ड में या दर्ज इमारत परिवार संख्या	मालिकों या व्यक्तियों, जिनके नियंत्रण इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन में इमारत हो, का नाम और पता	अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल			
			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्गमीटर में (अनुमानित)
135ए० चितरंजन एवेन्यू (प्रभात सिनेमा हाउस) कलकत्ता	श्री जगन्नाथ राय, 53 बी, सोमा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-5	चितरंजन एवेन्यू के फुटपाथ को घेरते वाली इमारत के केनोपी भाग को गिराकर हटा दे।	6.60	2.60	19.56

[फाइल सं० 81/एमटीपी/सी/एस ए/7]

S.O. 353 (E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration of the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore in exercise of the power conferred under section 21(1)(a) it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the scheduled below, do demolish or make such alternations as detailed in the schedule to such building within three months from the date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made hereunder shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

It is further notified for information of the owner/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 has his office located at Second floor of the Machihnon Mackenzie, Building 16, Strand Road, Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises Number as recorded in Calcutta Corporation Record.	Name and address of owners or the persons having control over the Building.	Direction for alternation to be done in the Building.	Approximate dimension and area of portico		
			Length in Metrs.	Breadth in Metrs.	Area in Sq. m.(App)
135A, Chittaranjan Avenue (Prabhat Cinema House) Calcutta.	Sri Jagannath Roy 53B, Sovabazar Street, Calcutta-5.	Dismantle and remove the canopy portion of the building covering footpath of Chittaranjan Avenue.	6.60	2.60	19.56

[No. 81/MTP/C/LA/7]

का० अा० 354(अ)--चूंकि केन्द्रीय सरकार की राय है कि कलकत्ता में मेट्रो रेलवे निर्माण करने के लिए नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारतों में, जो मेट्रो संरेखण से 10 मीटर से अधिक दूरी के भीतर है, नीचे अनुसूची में यथावर्णित परिवर्तन करना आवश्यक है, अतः धारा 21(1)(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए एनद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि ऐसे मालिक/व्यक्ति जिनके पास नीचे अनुसूची में यथावर्णित इमारत का नियंत्रण हो, वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर ऐसी इमारत को गिरा दें अथवा उसमें नीचे अनुसूची में दिये गये च्योरे के अनुसार परिवर्तन कर दें।

इस सम्बन्ध में ऐसे मालिकों/व्यक्तियों, जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, का ध्यान भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 22 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है। इसके अधीन दिये गये निर्देश का अनुपालन न होने पर भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के नियम 16 में दिये गये उपबंधों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36 के उपबंध भी लागू होंगे। ऐसे मालिकों/व्यक्तियों जिनके पास इमारत का नियंत्रण हो, के सूचनाार्थ यह आगे और अधिसूचित किया जाता है कि भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय मैकमान मैकेन्जी बिल्डिंग, स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता-700001 के दूसरी मंजिल में स्थित है।

अनुसूची

कलकत्ता नगर निगम को रिकार्ड में मालिकों या व्यक्तियों, जिनके इमारत में किये जाने वाले परिवर्तन अनुमानित आयाम तथा पोर्टिको का क्षेत्रफल यथा वर्ज इमारत परिवार संख्या नियंत्रण में इमारत हो, का नाम के लिए निर्देश और पता

			लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में (अनुमानित)
165. चित्तरंजन एवेन्यू	(1) श्री प्रतापमल बागारिया श्री शिवप्रसाद बागारिया 54, नलिन सेठ रोड, कलकत्ता-7	चित्तरंजन एवेन्यू के फुटपाथ को घेरने वाली इमारत के केनोपी भाग को गिराकर हटा दें।	13.57	3.77	51.16
	(2) श्री रंगलाल बागारिया श्री धनराज बागारिया श्रीमती सरजू देवी श्री दुष्कीनन्दन बागारिया 39, बटतला स्ट्रीट, कलकत्ता-7.				
	(3) श्री दुर्गा प्रसाद नाथानी, श्रीमती रत्नी नाथानी, 17, सरकार लेन, कलकत्ता-7				

[फाइल सं० 81/एम०टी०पी०/सी०एल ए/8]

हिम्मत सिंह, सचिव,

रेलवे बोर्ड एवं

भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

S.O. 354(E).—As the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to make such alteration of the building as described in the schedule below which is within a distance not exceeding 10 metres from the Metro alignment, therefore in exercise of the power conferred under section 21(1)(a) it is hereby directed that owners/persons having control over such building as described in the schedule below, do demolish or make such alterations as detailed in the schedule to such building within three months from the date of publication of this notification.

Attention of the owners/persons having control over the building is also drawn to section 22 of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978, in this connection. Non-compliance to the direction as made hereunder shall invite application of section 36 of the Act along with provisions as contained in Rule 16 of RULES as framed under the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

It is further notified for information of the owner/persons having control over the building, that the Competent Authority as prescribed under the Metro Railway (Construction of works) Act, 1978 has his office located at Second floor of the Mackinnon Mackenzie Building, 16, Strand Road, Calcutta-700001.

SCHEDULE

Building Premises Numbers recorded in Calcutta Corporation Record	Name and address of owners or the persons having control over the Building	Direction for alternation to be done in the Building	Approximate dimensions & area of portico		
			Length in Metres	Breadth in Metres	Area in Sqm. (Appx.)
165, Chittaranjan Avenue.	(1) Sri Protapmull Bagaria Sri Sewprosad Bagaria 54, Nilin Sett Rd, Calcutta-7.	Dismantle and remove the canopy portion of the building covering footpath of Chittaranjan Avenue.	13.57	3.77	51.16
	(2) Sri Rangalal Bagaria Sri Dhanraj Bagaria Smt. Saraju Devi Sri Deokinandan Bagaria 39, Bartolla St., Calcutta-7.				
	(3) Sri Durga Prosad Nathany, Smt. Ratni Nathany, 17, Sarkar, Lane, Calcutta-7.				

[No. 81/MTP/C/LA/8]

HIMMAT SINGH, Secy.
Railway Board & Ex-officio Jt. Secy.
to the Govt. of India